

कुल पृष्ठों की संख्या -1

कुल प्रश्नों ली संख्या -22

भगतसिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतरण (झाली)

अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2018-2019

कक्षा- VII

विषय - विज्ञान

उन्नय : 2.30 घण्टे

पूर्णांक : 50

प्रियोग :- सभी प्रश्न एक अंकित है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुरितका ने ही लिखे तथा प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने अंकित है।

प्रश्न 1 से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर दो।

$1 \times 4 = 4$ अंक

- (1) वह अधारु जो विधुत की सुधालक है ?
(अ) कोण्टला (ब) एफाइट (स) गन्धक (द) ब्राइटोजन ()
(2) कार्य करने की क्षमता कहलाती है ?
(अ) शापित (स) दल (स) संग्रन (क) जर्जा ()
(3) विधुत धारा को उन्नकीय प्रभाव के खोजकर्ता थे ?
(अ) न्यूटर (ब) फैराडे (स) ऑररटेड (द) पालेमिंग ()
(4) भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है ?
(अ) भास्कर- I (ब) आर्यभट्ट (स) कल्पना- I (द) इन्डिया-I ()

प्रश्न 5 से 8 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

$4 \times 1 = 4$ अंक

- (5) मिटटी के उलटने-पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है।
(6) रुधिर वर्ग O वाला व्यक्ति होता है।
(7) मनुष्य ने बाज घूंचे का नुस्खा स्ट्रोत होता है।
(8) भूचना रोकनीयी पर आधारित वह मशीन जो ग्राह घार्ट आदि को ढेलोपने नेटवर्क द्वारा दुसरे स्थान तक भेजती है कहलाती है।

प्रश्न 9 से 14 अतिलघुत्तरात्क प्रश्नों के उत्तर दिजिए।

$6 \times 2 = 12$ अंक

प्रश्न 9 पैराशूट तथा रोसेया किस कृत्रिम रेशे से बनाई जाती है ?

प्रश्न 10 सबसे बड़े और सबसे छोटे पुष्प का नाम लिखो ?

प्रश्न 11 रक्त को तरल रूप में बनाए रखने का नार्य कौन करता है ?

प्रश्न 12 डेली-मेर्डिन न क्या है ?

प्रश्न 13 मेण्डल के अनुवर्शिकता के लौंगों नियम लिखो ?

प्रश्न 14 आदान-दर्कन्तरता से क्या आशय है ?

प्रश्न 15 से 19 लघुत्तरात्क प्रश्नों के उत्तर दिजिए।

$5 \times 3 = 15$ अंक

प्रश्न 15 उदाहरण तथा खाद में कोई घार अंतर लिखो ?

प्रश्न 16 42 का सिद्धांत क्या है ?

प्रश्न 17 एच. एम. बी (H.V) दायरस प्रा. नामांकित घिन्ड इनाओं ?

प्रश्न 18 एक आद्य यंत्र 200 कम्पन पूर्ण करने में 2 ऐंगिल का समय लेता है तो इसकी आवृत्ति ज्ञात करो ?

प्रश्न 19 सूर्योदय से पहले व सूर्योरता के पश्चात सूर्य अपो दिखाई देता है ?

प्रश्न 20 से 22 निबन्धात्मक प्रश्नों के उत्तर दिजिए।

$3 \times 5 = 15$ अंक

प्रश्न 20 रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है किन्ही चार रासायनिक

अभिक्रिया उदाहरण सहित लगाओ ?

प्रश्न 21 (i) मानव हृदय की संरचना का संकेत वर्णन करो ?

(ii) धूमें लकड़ी के सरितात्क तक पहुंचने की प्रक्रिया नहीं मानव कर्ण के जामांकित घिन्ड से लगाऊ ?

प्रश्न 22 इन्टरनेट का इन्टरनेट द्वारा है। इन्टरनेट पर आधारित प्रमुख संचार माध्यनों के भाव बताते हुए उनमें वर्णन करो ?